

Roll No.-----

Paper Code

3 0 5

(To be filled in the
OMR Sheet)

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सीरीज
Question Booklet Series

A

LL.B (Fifth Semester) Examination, July-2022

(LL.B503)

Principles of Taxation Law

(For Ex/Back Paper)

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

निर्देश : —

1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सीरीज का विवरण यथास्थान सही— सही भरे, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, तो उसे गलत उत्तर माना जायेगा।
3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी ओ०एम०आर० शीट उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : —

प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

K-305

1. Tax is a :
 - (A) Voluntary contribution
 - (B) Compulsory contribution
 - (C) May be voluntary or compulsory contribution
 - (D) None of the above
2. The Directorate of Inspection (Investigation) was set up in :
 - (A) 1945
 - (B) 1952
 - (C) 1955
 - (D) 1960
3. The Internal Audit Scheme was introduced in the Income-tax Department in :
 - (A) 1951
 - (B) 1952
 - (C) 1953
 - (D) 1954
4. I. R. S. (Direct Taxes) Staff College started functioning in :
 - (A) 1956
 - (B) 1957
 - (C) 1958
 - (D) 1959

1. कर एक है :
 - (A) स्वैच्छिक योगदान
 - (B) अनिवार्य योगदान
 - (C) स्वैच्छिक या अनिवार्य योगदान हो सकता है
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
2. निरीक्षण निदेशालय (जांच) की स्थापना की गई थी :
 - (A) 1945 में
 - (B) 1952 में
 - (C) 1955 में
 - (D) 1960 में
3. आयकर विभाग में आंतरिक लेखा परीक्षा योजना शुरू की गई थी :
 - (A) 1951 में
 - (B) 1952 में
 - (C) 1953 में
 - (D) 1954 में
4. आई० आर० एस० (प्रत्यक्ष कर) स्टाफ कॉलेज ने कार्य करना शुरू किया :
 - (A) 1956 में
 - (B) 1957 में
 - (C) 1958 में
 - (D) 1959 में

- | | |
|--|---|
| <p>5. The National Academy of Direct Taxes is located at :</p> <p>(A) Bombay</p> <p>(B) New Delhi</p> <p>(C) Nagpur</p> <p>(D) Lucknow</p> | <p>5. राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी स्थित है :</p> <p>(A) बॉम्बे में</p> <p>(B) नई दिल्ली में</p> <p>(C) नागपुर में</p> <p>(D) लखनऊ में</p> |
| <p>6. Central Board of Revenue Act was enacted in the year :</p> <p>(A) 1955</p> <p>(B) 1960</p> <p>(C) 1961</p> <p>(D) 1963</p> | <p>6. केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम अधिनियमित किया गया था :</p> <p>(A) 1955 में</p> <p>(B) 1960 में</p> <p>(C) 1961 में</p> <p>(D) 1963 में</p> |
| <p>7. Computerization in the Income-tax Department started in :</p> <p>(A) 1951</p> <p>(B) 1961</p> <p>(C) 1971</p> <p>(D) 1981</p> | <p>7. आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण शुरू हुआ :</p> <p>(A) 1951 में</p> <p>(B) 1961 में</p> <p>(C) 1971 में</p> <p>(D) 1981 में</p> |
| <p>8. Income-tax Appellate Tribunal came into existence in the year :</p> <p>(A) 1921</p> <p>(B) 1931</p> <p>(C) 1941</p> <p>(D) 1951</p> | <p>8. आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण अस्तित्व में आया :</p> <p>(A) 1921 में</p> <p>(B) 1931 में</p> <p>(C) 1941 में</p> <p>(D) 1951 में</p> |

9. Report of Income-tax Investigation Commission known as Vardhachari Commission was received in :

- (A) 1931
- (B) 1951
- (C) 1961
- (D) 1981

10. Estate Duty Act came into existence in :

- (A) 15-01-1952
- (B) 15-10-1952
- (C) 15-01-1953
- (D) 15-10-1953

11. John Mathai Commission was set up in :

- (A) 1954
- (B) 1955
- (C) 1959
- (D) 1960

12. TRACES means :

- (A) TDS Reconciliation, Accounting and Correction Ending System
- (B) TDS Reconciliation, Accounting and Correction Enabling System
- (C) TDS Reconciliation, Accounting and Compulsory Enabling System
- (D) TDS Remember, Accounting and Correction Enabling System

9. वर्धाचारी आयोग के रूप में ज्ञात आयकर जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी :

- (A) 1931 में
- (B) 1951 में
- (C) 1961 में
- (D) 1981 में

10. संपदा शुल्क अधिनियम अस्तित्व में आया :

- (A) 15-01-1952 में
- (B) 15-10-1952 में
- (C) 15-01-1953 में
- (D) 15-10-1953 में

11. जॉन मथाई आयोग की स्थापना की गई थी :

- (A) 1954में
- (B) 1955 में
- (C) 1959 में
- (D) 1960 में

12. TRACES का अर्थ है :

- (A) TDS Reconciliation, Accounting and Correction Ending System
- (B) TDS Reconciliation, Accounting and Correction Enabling System
- (C) TDS Reconciliation, Accounting and Compulsory Enabling System
- (D) TDS Remember, Accounting and Correction Enabling System

- | | |
|--|--|
| <p>13. SIT to investigate Black Money in Swiss Bank Accounts was formed in :</p> <p>(A) 2010</p> <p>(B) 2011</p> <p>(C) 2012</p> <p>(D) 2014</p> | <p>13. स्विस बैंक खातों में काले धन की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था :</p> <p>(A) 2010 में</p> <p>(B) 2011में</p> <p>(C) 2012 में</p> <p>(D) 2014 में</p> |
| <p>14. The Wealth-tax Act came into force on :</p> <p>(A) 1-4-1956</p> <p>(B) 1-4- 1957</p> <p>(C) 1-4-1958</p> <p>(D) 1-4-1959</p> | <p>14. संपत्ति कर अधिनियम लागू हुआ :</p> <p>(A) 1-4-1956 में</p> <p>(B) 1-4- 1957 में</p> <p>(C) 1-4-1958 में</p> <p>(D) 1-4-1959 में</p> |
| <p>15. The Gift-tax Act was enacted in :</p> <p>(A) 1952</p> <p>(B) 1954</p> <p>(C) 1956</p> <p>(D) 1958</p> | <p>15. उपहार—कर अधिनियम अधिनियमित किया गया था :</p> <p>(A) 1952 को</p> <p>(B) 1954 को</p> <p>(C) 1956 को</p> <p>(D) 1958 को</p> |
| <p>16. Income-tax Act, 1961 came into existence on :</p> <p>(A) 1-4-1961</p> <p>(B) 1-4-1962</p> <p>(C) 1-4-1963</p> <p>(D) 1-4-1964</p> | <p>16. आयकर अधिनियम, 1961 अस्तित्व में आया :</p> <p>(A) 1-4-1961में</p> <p>(B) 1-4-1962 में</p> <p>(C) 1-4-1963 में</p> <p>(D) 1-4-1964 में</p> |

17. ITDMS means :
- (A) International Tax Payer Data Management System
 - (B) Indian Tax Payer Data Management System
 - (C) Integrated Tax Payer Data Management System
 - (D) Integration of Tax Payer Data Management System

18. TRPS means :
- (A) Tax Return Preparer Scheme
 - (B) Total Return Preparer Scheme
 - (C) Table Return Preparer Scheme
 - (D) Tax Return Preparer Society

19. Securities Transaction Tax was introduced in :
- (A) 2001
 - (B) 2002
 - (C) 2003
 - (D) 2004

20. Banking Cash Transaction Tax was introduced on :
- (A) 01-06-2003
 - (B) 01-06-2004
 - (C) 01-06-2005
 - (D) 01-06-2006

17. ITDMS का अर्थ है :
- (A) International Tax Payer Data Management System
 - (B) Indian Tax Payer Data Management System
 - (C) Integrated Tax Payer Data Management System
 - (D) Integration of Tax Payer Data Management System

18. TRPS का अर्थ है :
- (A) Tax Return Preparer Scheme
 - (B) Total Return Preparer Scheme
 - (C) Table Return Preparer Scheme
 - (D) Tax Return Preparer Society

19. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वर्ष _____ में शुरू हुआ :
- (A) 2001
 - (B) 2002
 - (C) 2003
 - (D) 2004

20. बैंकिंग नकद लेनदेन कर _____ से शुरू किया गया :
- (A) 01-06-2003
 - (B) 01-06-2004
 - (C) 01-06-2005
 - (D) 01-06-2006

- | | |
|--|--|
| <p>21. The concept of Annual Information Return in India was introduced in :</p> <p>(A) 2004</p> <p>(B) 2005</p> <p>(C) 2006</p> <p>(D) 2007</p> | <p>21. भारत में वार्षिक सूचना विवरणी की अवधारणा की शुरुआत की गई थी :</p> <p>(A) 2004 में</p> <p>(B) 2005 में</p> <p>(C) 2006 में</p> <p>(D) 2007 में</p> |
| <p>22. Interest-tax Act was terminated with effect from :</p> <p>(A) 1-4-1999</p> <p>(B) 1-4-2000</p> <p>(C) 1-4-2001</p> <p>(D) 1-4-2002</p> | <p>22. ब्याज-कर अधिनियम _____ से समाप्त किया गया :</p> <p>(A) 1-4-1999</p> <p>(B) 1-4-2000</p> <p>(C) 1-4-2001</p> <p>(D) 1-4-2002</p> |
| <p>23. Samman Scheme to honour deserving tax payers was introduced in :</p> <p>(A) 1997</p> <p>(B) 1998</p> <p>(C) 1999</p> <p>(D) 2000</p> | <p>23. योग्य करदाताओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान योजना शुरू की गई थी :</p> <p>(A) 1997 में</p> <p>(B) 1998 में</p> <p>(C) 1999 में</p> <p>(D) 2000 में</p> |
| <p>24. Presumptive tax scheme was discontinued in :</p> <p>(A) 1995</p> <p>(B) 1996</p> <p>(C) 1997</p> <p>(D) 1998</p> | <p>24. प्रकल्पित कर योजना को बंद कर दिया गया :</p> <p>(A) 1995 में</p> <p>(B) 1996 में</p> <p>(C) 1997 में</p> <p>(D) 1998 में</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>25. Expenditure Tax Act brought into force in :</p> <p>(A) 1986</p> <p>(B) 1987</p> <p>(C) 1988</p> <p>(D) 1990</p> | <p>25. व्यय कर अधिनियम को लागू किया गया :</p> <p>(A) 1986 में</p> <p>(B) 1987 में</p> <p>(C) 1988 में</p> <p>(D) 1990 में</p> |
| <p>26. L. K. Jha Committee set up for simplification and rationalization of tax laws in :</p> <p>(A) 1986</p> <p>(B) 1987</p> <p>(C) 1992</p> <p>(D) 1993</p> | <p>26. कर कानूनों के सरलीकरण और युक्तिकरण के लिए एल० के० झा समिति का गठन-किया गया था :</p> <p>(A) 1986 में</p> <p>(B) 1987 में</p> <p>(C) 1992 में</p> <p>(D) 1993 में</p> |
| <p>27. Hotel Receipt Tax Act, 1980 came into force on :</p> <p>(A) 1.4.1980</p> <p>(B) 1.4.1982</p> <p>(C) 1.4.1983</p> <p>(D) 1.4.1981</p> | <p>27. होटल रसीद कर अधिनियम, 1980 लागू हुआ :</p> <p>(A) 1.4.1980 को</p> <p>(B) 1.4.1982 को</p> <p>(C) 1.4.1983 को</p> <p>(D) 1.4.1981 को</p> |
| <p>28. Who is known as father of Income Tax in India?</p> <p>(A) Sir James Wilson</p> <p>(B) K.N. Wanchoo</p> <p>(C) Pranab Mukherjee</p> <p>(D) C.S. Choksi</p> | <p>28. भारत में आयकर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है?</p> <p>(A) सर जेम्स विल्सन</p> <p>(B) के० एन० वांचू</p> <p>(C) प्रणब मुखर्जी</p> <p>(D) सी० एस० चोकसी</p> |

29. Which of the following is illegal?
- (A) Tax evasion
 - (B) Tax avoidance
 - (C) Tax planning
 - (D) All of the above

30. CBDT means :
- (A) Central Bureau of Direct Taxation
 - (B) Central Board of Direct Taxes
 - (C) Central Board of Digital taxes
 - (D) Central Board of Direct Taxation

31. Who is known as the father of tax reforms of India?
- (A) Raja Chelliah
 - (B) Amresh Bagechi
 - (C) C. S. Choksi
 - (D) None of the above

32. Income –Tax is levied on previous year's income. This statement is :
- (A) Correct
 - (B) Incorrect
 - (C) Partly correct
 - (D) None of the above

29. निम्नलिखित में से कौन अवैध है?
- (A) कर-वचन
 - (B) कर परिहार
 - (C) कर योजना
 - (D) उपरोक्त सभी

30. CBDT का अर्थ है :
- (A) Central Bureau of Direct Taxation
 - (B) Central Board of Direct Taxes
 - (C) Central Board of Digital taxes
 - (D) Central Board of Direct Taxation

31. भारत के कर सुधारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
- (A) राजा चेल्लियाह
 - (B) अमरेश बागेची
 - (C) सी० एस० चोकसी
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

32. आय-कर पिछले वर्ष की आय पर लगाया जाता है। यह कथन है :
- (A) सही
 - (B) गलत
 - (C) आंशिक रूप से सही
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- | | |
|---|---|
| <p>33. Tax is levied under :</p> <p>(A) Personal authority</p> <p>(B) Individual authority</p> <p>(C) Sovereign authority</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>33. कर _____ के तहत लगाया जाता है :</p> <p>(A) व्यक्तिगत अधिकार</p> <p>(B) वैयक्तिक अधिकार</p> <p>(C) संप्रभु अधिकार</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>34. Which of the following taxes is paid by one person but collected from another?</p> <p>(A) Indirect tax</p> <p>(B) Direct tax</p> <p>(C) Tax of any type</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>34. निम्नलिखित में से कौन-सा कर एक व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है लेकिन दूसरे से एकत्र किया जाता है?</p> <p>(A) अप्रत्यक्ष कर</p> <p>(B) प्रत्यक्ष कर</p> <p>(C) किसी भी प्रकार का कर</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>35. Taxation on Income (Investigation) commission was set up in :</p> <p>(A) 1942</p> <p>(B) 1945</p> <p>(C) 1947</p> <p>(D) 1956</p> | <p>35. आय पर कराधान (जांच) आयोग की स्थापना की गई थी :</p> <p>(A) 1942 में</p> <p>(B) 1945 में</p> <p>(C) 1947 में</p> <p>(D) 1956 में</p> |
| <p>36. ED means:</p> <p>(A) Enforcing Directions</p> <p>(B) Enforcement Directorate</p> <p>(C) Enforcement for Direction</p> <p>(D) Easy Directorate</p> | <p>36. ED का अर्थ है :</p> <p>(A) Enforcing Directions</p> <p>(B) Enforcement Directorate</p> <p>(C) Enforcement for Direction</p> <p>(D) Easy Directorate</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>37. A tax is a pecuniary burden. This statement is :</p> <p>(A) Correct</p> <p>(B) Incorrect</p> <p>(C) Partly correct</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>37. एक कर एक आर्थिक बोझ है। यह कथन है :</p> <p>(A) सही</p> <p>(B) गलत</p> <p>(C) आंशिक रूप से सही</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>38. A direct tax is one that can be shifted by the taxpayer to someone else. This statement is :</p> <p>(A) Correct</p> <p>(B) Incorrect</p> <p>(C) Partly correct</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>38. एक प्रत्यक्ष कर वह है जिसे करदाता किसी और को स्थानांतरित कर सकता है। यह कथन है :</p> <p>(A) सही</p> <p>(B) गलत</p> <p>(C) आंशिक रूप से सही</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>39. No tax shall be levied or collected except by :</p> <p>(A) Authority of executive</p> <p>(B) Authority of judiciary</p> <p>(C) Authority of law</p> <p>(D) Authority of legislature</p> | <p>39. कोई कर _____ के बिना नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।</p> <p>(A) कार्यपालिकीय प्राधिकार</p> <p>(B) न्यायपालिकीय प्राधिकार</p> <p>(C) विधि के प्राधिकार</p> <p>(D) विधायिकीय प्राधिकार</p> |
| <p>40. The subject of tax laws is inherently complicated. This statement is:</p> <p>(A) Correct</p> <p>(B) Incorrect</p> <p>(C) Partly correct</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>40. कर कानूनों का विषय स्वाभाविक रूप से जटिल है। यह कथन है :</p> <p>(A) सही</p> <p>(B) गलत</p> <p>(C) आंशिक रूप से सही</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

41. Goods and services tax is:

(A) Direct tax

(B) Indirect tax

(C) Neither direct tax nor indirect tax

(D) None of the above

42. Under which Article of the Indian Constitution GST Council has been established?

(A) Article 277A

(B) Article 278A

(C) Article 279

(D) Article 279A

43. Article _____ was inserted by constitution (101st) Amendment Act, 2016.

(A) 246A

(B) 246

(C) 247

(D) 249

41. वस्तु एवं सेवा कर है :

(A) प्रत्यक्ष कर

(B) अप्रत्यक्ष कर

(C) न तो प्रत्यक्ष कर और न ही अप्रत्यक्ष कर

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

42. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद की स्थापना की गई है ?

(A) अनुच्छेद 277ए

(B) अनुच्छेद 278ए

(C) अनुच्छेद 279

(D) अनुच्छेद 279ए

43. अनुच्छेद _____ संविधान (101वां) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया :

(A) 246ए

(B) 246

(C) 247

(D) 249

44. Which of the following Article of the Indian Constitution deals with taxes levied and collected by the Union but assigned to the states?

- (A) Article 245
- (B) Article 248
- (C) Article 249
- (D) Article 269

45. Goods and Services tax' is defined in which article of the Indian Constitution?

- (A) Article 12A
- (B) Article 26A
- (C) Article 26B
- (D) Article 29A

46. The first country to implement Goods & Services Tax was:

- (A) India
- (B) France
- (C) Germany
- (D) Canada

44. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के विषय में उल्लेख करता है?

- (A) अनुच्छेद 245
- (B) अनुच्छेद 248
- (C) अनुच्छेद 249
- (D) अनुच्छेद 269

45. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर को परिभाषित किया गया है?

- (A) अनुच्छेद 12ए में
- (B) अनुच्छेद 26ए में
- (C) अनुच्छेद 26बी में
- (D) अनुच्छेद 29ए में

46. वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला देश था :

- (A) भारत
- (B) फ्रांस
- (C) जर्मनी
- (D) कनाडा

- | | |
|--|---|
| <p>47. 1st July is observed as the GST day. This statement is :</p> <p>(A) Correct</p> <p>(B) Incorrect</p> <p>(C) Partly correct</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>47. 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कथन है :</p> <p>(A) सही</p> <p>(B) गलत</p> <p>(C) आंशिक रूप से सही</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>48. Petroleum product is kept outside the ambit of GST. This statement is :</p> <p>(A) Correct</p> <p>(B) Incorrect</p> <p>(C) Partly correct</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>48. पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यह कथन है :</p> <p>(A) सही</p> <p>(B) गलत</p> <p>(C) आंशिक रूप से सही</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>49. Supply is the point of the taxable event under Goods & Services Tax. This statement is :</p> <p>(A) Correct</p> <p>(B) Incorrect</p> <p>(C) Partly correct</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>49. माल और सेवा कर के तहत आपूर्ति कर योग्य घटना का बिंदु है। यह कथन है –</p> <p>(A) सही</p> <p>(B) गलत</p> <p>(C) आंशिक रूप से सही</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>50. In case of export of goods, place of supply is the location outside India. This statement is :</p> <p>(A) Correct</p> <p>(B) Incorrect</p> <p>(C) Partly correct</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>50. माल के निर्यात के मामले में, आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर के स्थान है। यह कथन है :</p> <p>(A) सही</p> <p>(B) गलत</p> <p>(C) आंशिक रूप से सही</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

51. GST is a consumption of goods and service based on :

- (A) Destination
- (B) Destiny
- (C) Development
- (D) Dividend

52. IGST stands for :

- (A) Indian Goods and Services Tax
- (B) International Goods and Services Tax
- (C) Integrated Goods and Services Tax
- (D) Integration of Goods and Services Tax

53. Which of the following Articles of the Indian Constitution deals with exemption of property of the Union from State taxation?

- (A) Article 282
- (B) Article 283
- (C) Article 284
- (D) Article 285

54. Exemption from taxes on electricity is dealt with in which Article of the Indian Constitution?

- (A) Article 286
- (B) Article 287
- (C) Article 288
- (D) Article 289

51. जीएसटी माल और सेवा की खपत _____ पर आधारित है :

- (A) गंतव्य
- (B) भाग्य
- (C) विकास
- (D) लाभांश

52. IGST का अर्थ है :

- (A) Indian Goods and Services Tax
- (B) International Goods and Services Tax
- (C) Integrated Goods and Services Tax
- (D) Integration of Goods and Services Tax

53. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राज्य कराधान से संघ की संपत्ति की छूट से संबंधित है?

- (A) अनुच्छेद 282
- (B) अनुच्छेद 283
- (C) अनुच्छेद 284
- (D) अनुच्छेद 285

54. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बिजली पर करों से छूट का प्रावधान है?

- (A) अनुच्छेद 286
- (B) अनुच्छेद 287
- (C) अनुच्छेद 288
- (D) अनुच्छेद 289

55. The property and income of a State is exempt from Union taxation.

This statement is :

- (A) Correct
- (B) Incorrect
- (C) Partly correct
- (D) None of the above

56. Taxes on professions, trades, callings and employments is dealt with in which Article of the Indian Constitution?

- (A) Article 276
- (B) Article 277
- (C) Article 278
- (D) Article 279

57. Finance Commission Is Constituted By Whom?

- (A) Prime Minister
- (B) President
- (C) Finance Minister
- (D) Law Minister

58. Fee is a :

- (A) Compulsory payment
- (B) Voluntary payment
- (C) Mandatory payment
- (D) None of the above

55. किसी राज्य की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्राप्त है। यह कथन है :

- (A) सही
- (B) गलत
- (C) आंशिक रूप से सही
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

56. भारतीय संविधान के कौन-सा अनुच्छेद व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर करों से संबंधित है?

- (A) अनुच्छेद 276
- (B) अनुच्छेद 277
- (C) अनुच्छेद 278
- (D) अनुच्छेद 279

57. वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है?

- (A) प्रधान मंत्री
- (B) राष्ट्रपति
- (C) वित्त मंत्री
- (D) कानून मंत्री

58. शुल्क एक है :

- (A) अनिवार्य भुगतान
- (B) स्वैच्छिक भुगतान
- (C) अनिवार्य भुगतान
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

59. Judicial review is power of :

- (A) Judiciary
- (B) Executive
- (C) Legislature
- (D) All of the above

60. Which of the following canons implies that any tax system should be based on the principle of social justice?

- (A) Canon of Certainty
- (B) Canon of Economy
- (C) Canon of Equity
- (D) Canon of Convenience

61. Which of the following is not a feature of good tax system?

- (A) Fairness
- (B) Adequacy
- (C) Complexity
- (D) Transparency

62. Which of the following is feature of good tax system?

- (A) Simplicity
- (B) Adequacy
- (C) Administrative ease
- (D) All of the above

59. न्यायिक पुनर्विलोकन _____ की शक्ति है :

- (A) न्यायपालिका
- (B) कार्यपालिका
- (C) विधायिका
- (D) उपरोक्त सभी

60. निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का तात्पर्य है कि कोई भी कर प्रणाली सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए?

- (A) निश्चितता का सिद्धांत
- (B) अर्थव्यवस्था का सिद्धांत
- (C) साम्या का सिद्धांत
- (D) सुविधा का सिद्धांत

61. निम्नलिखित में से कौन अच्छी कर प्रणाली की विशेषता नहीं है?

- (A) निष्पक्षता
- (B) पर्याप्तता
- (C) जटिलता
- (D) पारदर्शिता

62. निम्नलिखित में से कौन-सी अच्छी कर प्रणाली की विशेषता है?

- (A) सादगी
- (B) पर्याप्तता
- (C) प्रशासनिक आसानी
- (D) उपरोक्त सभी

63. When all taxpayers pay the same share of income in taxes, it is known as :

- (A) Proportional tax
- (B) Regressive tax
- (C) Progressive tax
- (D) None of the above

64. When the higher-income individuals are required to pay a higher share of their income in taxes, it is called :

- (A) Progressive tax
- (B) Proportional tax
- (C) Regressive tax
- (D) None of the above

65. Income Tax was introduced in India for the first time by the British in :

- (A) 1800
- (B) 1820
- (C) 1840
- (D) 1860

66. How many schedules are there in the Income Tax Act, 1961?

- (A) 10
- (B) 12
- (C) 14
- (D) 16

63. जब सभी करदाता करों में आय के समान हिस्से का भुगतान करते हैं, तो इसे कहा जाता है :

- (A) आनुपातिक कर
- (B) प्रतिगामी कर
- (C) प्रगतिशील कर
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

64. जब उच्च आय वाले व्यक्तियों को करों में अपनी आय का अधिक हिस्सा देने की आवश्यकता होती है, तो इसे कहा जाता है :

- (A) प्रगतिशील कर
- (B) आनुपातिक कर
- (C) प्रतिगामी कर
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

65. भारत में पहली बार अंग्रेजों द्वारा आयकर की शुरुआत की गई थी :

- (A) 1800 में
- (B) 1820 में
- (C) 1840 में
- (D) 1860 में

66. आयकर अधिनियम, 1961 में कितनी अनुसूचियां हैं?

- (A) 10
- (B) 12
- (C) 14
- (D) 16

67. How many sections are there in the Income Tax Act, 1961?

- (A) 198
- (B) 298
- (C) 398
- (D) 400

68. A person by whom any tax or any other sum of money is payable under Income Tax Act is called :

- (A) Assessing officer
- (B) Assesse
- (C) Officer
- (D) All of the above

69. Assessment year commences on the 1st day of _____ every year.

- (A) January
- (B) March
- (C) April
- (D) May

70. Dividend is defined in which section of the Income Tax Act?

- (A) Section 2 (2)
- (B) Section 2 (12)
- (C) Section 2 (22)
- (D) Section 2 (32)

67. आयकर अधिनियम, 1961 में कितनी धाराएँ हैं?

- (A) 198
- (B) 298
- (C) 398
- (D) 400

68. वह व्यक्ति जिसके द्वारा आयकर अधिनियम के तहत कोई कर या कोई अन्य राशि देय होती है, कहलाता है :

- (A) निर्धारण अधिकारी
- (B) निर्धारिती
- (C) अधिकारी
- (D) उपरोक्त सभी

69. निर्धारण वर्ष हर साल _____ के पहले दिन से शुरू होता है :

- (A) जनवरी
- (B) मार्च
- (C) अप्रैल
- (D) मई

70. लाभांश को आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 2 (2) में
- (B) धारा 2 (12) में
- (C) धारा 2 (22) में
- (D) धारा 2 (32) में

71. 'Fair market value' is defined in which section of the Income Tax Act?

- (A) Section 2 (22A)
- (B) Section 2 (22AA)
- (C) Section 2 (22BB)
- (D) Section 2 (22B)

72. 'Income' is defined in which section of the Income Tax Act?

- (A) Section 2 (22)
- (B) Section 2 (23)
- (C) Section 2 (24)
- (D) Section 2 (25)

73. 'Interest' is defined in which section of the Income Tax Act?

- (A) Section 2 (28A)
- (B) Section 2 (28B)
- (C) Section 2 (28BB)
- (D) Section 2 (28C)

74. National Tax Tribunal Act is enacted in :

- (A) 2001
- (B) 2003
- (C) 2005
- (D) 2007

71. उचित बाजार मूल्य को आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 2 (22ए) में
- (B) धारा 2 (22एए) में
- (C) धारा 2 (22बीबी) में
- (D) धारा 2 (22बी) में

72. आय को आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 2 (22) में
- (B) धारा 2 (23) में
- (C) धारा 2 (24) में
- (D) धारा 2 (25) में

73. ब्याज को आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 2 (28ए) में
- (B) धारा 2 (28बी) में
- (C) धारा 2 (28बीबी) में
- (D) धारा 2 (28सी) में

74. राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया है :

- (A) 2001 में
- (B) 2003 में
- (C) 2005 में
- (D) 2007 में

75. National Tax Tribunal Act has :
- (A) 22 sections
 - (B) 26 sections
 - (C) 30 sections
 - (D) 50 sections
76. The National Tax Tribunal is established by which of the following?
- (A) President of India
 - (B) Prime Minister
 - (C) Central Government
 - (D) State Government
77. For the purpose of income tax person includes :
- (A) An individual
 - (B) A Hindu undivided family
 - (C) A Company
 - (D) All of the above
78. The Previous year is defined in which section of the Income Tax Act?
- (A) Section 2 (9)
 - (B) Section 2 (11)
 - (C) Section 2 (30)
 - (D) Section 3

75. राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम में है :
- (A) 22 धाराएं
 - (B) 26 धाराएं
 - (C) 30 धाराएं
 - (D) 50 धाराएं
76. राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है?
- (A) भारत के राष्ट्रपति द्वारा
 - (B) प्रधानमंत्री द्वारा
 - (C) केंद्र सरकार द्वारा
 - (D) राज्य सरकार द्वारा
77. आयकर के प्रयोजन के लिए व्यक्ति में शामिल हैं :
- (A) एक व्यक्ति
 - (B) एक हिंदू अविभाजित परिवार
 - (C) एक कंपनी
 - (D) उपरोक्त सभी
78. पूर्व वर्ष को आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है?
- (A) धारा 2 (9)
 - (B) धारा 2 (11)
 - (C) धारा 2 (30)
 - (D) धारा 3

79. 'Tax' is defined in which section of the Income Tax Act?

- (A) Section 2 (5)
- (B) Section 2 (7)
- (C) Section 2 (43)
- (D) Section 3

80. Merits of direct taxes are :

- (A) Equity
- (B) Elasticity and Productivity
- (C) Certainty
- (D) All of the above

81. 'Total income' is defined in which section of the Income Tax Act?

- (A) Section 2 (45)
- (B) Section 2 (47)
- (C) Section 2 (50)
- (D) Section 7

82. 'Incomes not included in total income' is dealt with in which section of the Income Tax Act?

- (A) Section 9
- (B) Section 10
- (C) Section 11
- (D) Section 12

79. आयकर अधिनियम की किस धारा में कर को परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 2 (5) में
- (B) धारा 2 (7) में
- (C) धारा 2 (43) में
- (D) धारा 3 में

80. प्रत्यक्ष करों के गुण हैं :

- (A) इक्विटी
- (B) लोच और उत्पादकता
- (C) निश्चितता
- (D) उपरोक्त सभी

81. कुल आय को आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 2 (45) में
- (B) धारा 2 (47) में
- (C) धारा 2 (50) में
- (D) धारा 7 में

82. कुल आय में शामिल नहीं होने वाली आय को आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रखा गया है?

- (A) धारा 9
- (B) धारा 10
- (C) धारा 11
- (D) धारा 12

83. 'Income from property held for charitable or religious purposes' is dealt with in which section of the Income Tax Act?

- (A) Section 10
- (B) Section 11
- (C) Section 15
- (D) Section 19

84. Which section of the Income Tax Act deals with heads of income?

- (A) Section 12
- (B) Section 13
- (C) Section 14
- (D) Section 15

85. Income Tax Rules were made in :

- (A) 1960
- (B) 1961
- (C) 1962
- (D) 1965

86. Deduction in case of a person with disability is dealt with in which section of the Income Tax Act?

- (A) Section 80TTA
- (B) Section 80VV
- (C) Section 80U
- (D) Section 80V

83. धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से होने वाली आय को आयकर अधिनियम की किस धारा में उल्लेख किया गया है?

- (A) धारा 10 में
- (B) धारा 11 में
- (C) धारा 15 में
- (D) धारा 19 में

84. आयकर अधिनियम की कौन-सी धारा आय के शीर्षों से संबंधित है?

- (A) धारा 12
- (B) धारा 13
- (C) धारा 14
- (D) धारा 15

85. आयकर नियम बनाए गए थे :

- (A) 1960 में
- (B) 1961 में
- (C) 1962 में
- (D) 1965 में

86. विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत की जाती है?

- (A) धारा 80TTA में
- (B) धारा 80VV में
- (C) धारा 80U में
- (D) धारा 80V में

87. Value of Fringe benefits is dealt with in which section of the Income Tax Act?

- (A) Section 115 WA
- (B) Section 155 WB
- (C) Section 115 WC
- (D) Section 115 WD

88. The term 'tax haven' has been widely used since the 1950s. This statement is :

- (A) Correct
- (B) Incorrect
- (C) Partly correct
- (D) None of the above

89. FATF means :

- (A) Final Action Task Force
- (B) Financial Action Task Force
- (C) Financial Action Task farm
- (D) None of the above

90. The term black money would also include legal income that is concealed from public authorities to evade payment of taxes. This statement is :

- (A) Correct
- (B) Incorrect
- (C) Partly correct
- (D) None of the above

87. अनुषंगी लाभों का मूल्य आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है?

- (A) धारा 115 डब्लू ए में
- (B) धारा 115 डब्लू बी में
- (C) धारा 115 डब्ल्यू सी में
- (D) धारा 115 डब्लू डी में

88. 1950 के दशक से टैक्स हेवन शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। यह कथन है :

- (A) सही
- (B) गलत
- (C) आंशिक रूप से सही
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

89. FATF का अर्थ है :

- (A) Final Action Task Force
- (B) Financial Action Task Force
- (C) Financial Action Task farm
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

90. काला धन शब्द में विधिक आय भी शामिल होगी जिसे करों के भुगतान से बचने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों से छुपाया जाता है। यह कथन है :

- (A) सही
- (B) गलत
- (C) आंशिक रूप से सही
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

91. Black money refers to money that is fully legitimate in the hands of the owner. This statement is :

- (A) Correct
- (B) Incorrect
- (C) Partly correct
- (D) None of the above

92. Penalty for failure to furnish return in relation to foreign income and asset is given in which section of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act?

- (A) Section 41
- (B) Section 42
- (C) Section 43
- (D) Section 45

93. Every person being a manager at any time during the financial year shall be _____ liable for the payment of any amount due under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act.

- (A) Jointly
- (B) Severally
- (C) Jointly and severally
- (D) None of the above

91. काला धन उस धन को संदर्भित करता है जो मालिक के हाथ में पूरी तरह से वैध है। यह कथन है :

- (A) सही
- (B) गलत
- (C) आंशिक रूप से सही
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

92. काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम की किस धारा में विदेशी आय और संपत्ति के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड दिया जाता है?

- (A) धारा 41 में
- (B) धारा 42 में
- (C) धारा 43 में
- (D) धारा 45 में

93. वित्त वर्ष के दौरान किसी समय प्रबंधक के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति वित्त वर्ष के लिए कंपनी के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी राशि के भुगतान के लिए _____ से उत्तरदायी होगा।

- (A) संयुक्त रूप से
- (B) स्वतंत्र रूप से
- (C) संयुक्त रूप से और स्वतंत्र रूप से
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

94. Penalty in relation to undisclosed foreign income and asset is given in which section of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act?

- (A) Section 40
- (B) Section 41
- (C) Section 42
- (D) Section 43

95. What is the punishment for willful attempt to evade tax?

- (A) Life imprisonment
- (B) Rigorous imprisonment not less than 3 years but may extend to ten years
- (C) Fine
- (D) Both (B) and (C)

94. अघोषित विदेश आय और संपत्ति के संबंध में जुर्माना काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम की किस धारा में दिया गया है?

- (A) धारा 40 में
- (B) धारा 41 में
- (C) धारा 42 में
- (D) धारा 43 में

95. कर अपवंचन के लिए इरादतन प्रयास हेतु क्या सजा है?

- (A) आजीवन कारावास
- (B) कम से कम 3 साल का कठोर कारावास जो दस साल तक हो सकता है
- (C) जुर्माना
- (D) दोनों (B) और (C)

96. Declaration by misrepresentation of facts under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act:

- (A) Valid
- (B) Void
- (C) Voidable
- (D) Legal

97. The offences under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act may be tried by :

- (A) Supreme Court only
- (B) High Court only
- (C) Magistrate of the first class
- (D) Magistrate of the second class

98. The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act came into force on :

- (A) 1 April, 2010
- (B) 1 April, 2012
- (C) 1 April, 2015
- (D) 1 April, 2016

96. काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम के तहत तथ्यों की गलत बयानी द्वारा घोषणा है :

- (A) वैध
- (B) शून्य
- (C) शून्यकरणीय
- (D) विधिक

97. काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण किया जाता है :

- (A) केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा
- (B) केवल उच्च न्यायालय द्वारा
- (C) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा
- (D) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा

98. काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम लागू हुआ :

- (A) 1 अप्रैल, 2010 को
- (B) 1 अप्रैल, 2012 को
- (C) 1 अप्रैल, 2015 को
- (D) 1 अप्रैल, 2016 को

99. Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act was enacted in the year :

- (A) 2010
- (B) 2012
- (C) 2015
- (D) 2020

100. How many sections are there in the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act ?

- (A) 88
- (B) 89
- (C) 90
- (D) 91

99. काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम वर्ष _____ में अधिनियमित किया गया।

- (A) 2010
- (B) 2012
- (C) 2015
- (D) 2020

100. काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम में कितनी धाराएँ हैं ?

- (A) 88
- (B) 89
- (C) 90
- (D) 91

Rough Work / रफ कार्य

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
 2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the answer will be marked as wrong.**
 3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
 4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
 5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
 6. After completion of examination, please hand over the O.M.R. SHEET to the Examiner before leaving the examination room.
 7. There is no negative marking.
- Note:** On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.